

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2019—वैशाख 4, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल दिनांक 24 अप्रैल 2019

फा.क्र. 2420-2550-2019-इक्कीस-ब(दो).- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के 03 जिलों (दतिया, सागर एवं मण्डला) के कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारी के रूप में लोकसभा निर्वाचन 2019 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से अदेशानुसार,
संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला दतिया, मध्यप्रदेश

क्रमांक-आरजीएम-लो.स.नि.-2019-562

दतिया, दिनांक 06 अप्रैल 2019

सेक्टर मजिस्ट्रेट ::

लोक सभा निर्वाचन 2019

लोक सभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत दतिया जिले के निम्न विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके नाम के संमुख अंकित मतदान केन्द्रों तथा संबन्धित थाना क्षेत्रों हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। संबंधित मजिस्ट्रेट आबंटित मतदान केन्द्रों का मतदान केन्द्रों का मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान तथा पश्चात् सतत अग्रण कर कानून व्यवस्था बनाये रखेंगे एवं शांति पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न करायेंगे तथा अधोस्ताक्षकर्ता को समय-समय पर सूचित करेंगे :-

| क्र | विधानसभा क्षेत्र | सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं मोबाइल | मतदान केन्द्रों के क्रमांक व नाम | पुलिस थाना/चौकी |
|-----|------------------|---|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 20-सेवदा | श्री.सुनील सिंह तदोरिया तहसीलदार सेवदा 8269548072 | 1-प्रा०पाठशाला किताना 2-प्रा०पाठशाला रूहेरा भाग-1 3-प्रा०पाठशाला रूहेरा भाग-2 4-प्रा०पाठशाला श्रीकमपुरा 5-प्रा०पाठशाला नीमडाडा 6-प्रा०पाठशाला मेवली 7-प्रा०पाठशाला पुराना कसेरुआ 8-प्रा०पाठशाला नया कसेरुआ 9-प्रा०पाठशाला बिजौरा 10-प्रा०पाठशाला अमरा 11-प्रा०पाठशाला गुमानपुरा 12-प्रा०पाठशाला गुमानपुरा 13-प्रा०पाठशाला मंगरील 14-प्रा०पाठशाला मंगरील 15-प्रा०पाठशाला ग्यासा 16-प्रा०पाठशाला कन्या ग्यासा 17-प्रा०पाठशाला बघावली 18-प्रा०पाठशाला डिरीलीपार 19-ग्राम सचिवालय डिरीलीपार 20-प्रा०पाठशाला राजपुर 21-प्रा०पाठशाला कन्दरपुरा सेवदा दक्षिणी भाग 22-प्राथमिक पाठशाला कन्दरपुरा सेवदा पश्चिमी भाग 23-प्रा०पाठशाला भवन नं.2 सेवदा 24-प्रा०पाठशाला वार्ड नं.3 सेवदा 25-प्रा०पाठशाला भवन क.1 सेवदा पूर्वी भाग 26-प्रा०पाठशाला भवन क.1 सेवदा पश्चिमी भाग 27-प्रा०पाठशाला क.1 दक्षिणी भाग सेवदा 28-प्रा०पाठशाला क.1 उत्तरी भाग सेवदा 29-प्रा०पाठशाला सिविल लाइन कक्ष क.3 30-कृषि विभाग कार्यालय सिविल लाइन सेवदा 31-कन्या प्रा०पाठशाला उत्तरी भाग कक्ष क.3 32-कन्या प्रा०पाठशाला उत्तरी भाग कक्ष क.7 33-प्रा०पाठशाला क.1 उत्तरी भाग कक्ष क.16 सेवदा 34-प्रा०पाठशाला क.10 दक्षिणी भाग सेवदा 35-प्रा०पाठशाला सांघरीपुरा सेवदा 36-प्रा०पाठशाला अनुसूज सेवदा 37-प्रा०पाठशाला कॉलेज सेवदा 38-प्रा०पाठशाला गेट के पास 39-कृषि उपज मण्डी कार्या. सेवदा 40-प्रा०पाठशाला क.2 नाज़िर की बगिया सेवदा | डीपार, सेवदा |

| विधानसभा क्षेत्र | सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं मोबाइल | मतदान केन्द्रों के क्रमांक व नाम | पुलिस थाना/चौकी | |
|------------------|-------------------------------------|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | 93-प्रा0पाठशाला परसोदागुजर | भंगुआपुरा, थरेंट, धीरपुरा, अतरेंटा, | |
| | | 94-प्रा0पाठशाला परसोदागुजर | | |
| | | 95-प्रा0पाठशाला फतेहपुर | | |
| | | 96-प्रा0पाठशाला खेरीदेवता | | |
| | | 97-प्रा0पाठशाला कुदारी भाग 1 कुदारी | | |
| | | 98-प्रा0पाठशाला कुदारी भाग 2 कुदारी | | |
| | | 99-प्रा0पाठशाला जशौली | | |
| | | 100-प्रा0पाठशाला ईगुई | | |
| | | 101-प्रा0पाठशाला आलमपुरखुर्द | | |
| | | 102-प्रा0पाठशाला उल्हारी भाग थरेंट | | |
| | | 103-प्रा0पाठशाला दक्षिणी भाग थरेंट | | |
| | | 104-उ0मा0वि0थरेंट | | |
| | | 105-उ0मा0वि0 अति0कक्ष थरेंट | | |
| | | 106-प्रा0पाठशाला बसईजीव | | |
| | | 107-प्रा0पाठशाला रुरा | | |
| | | 108-प्रा0पाठशाला रुराहा | | |
| | | 109-प्रा0पाठशाला धीरी | | |
| | | 110-प्रा0पाठशाला चरोखरा | | |
| | | 111-प्रा0मा0वि0परसेनीबुजुर्ग | | |
| | | 112-प्रा0मा0वि0परसेनीबुजुर्ग | | |
| | | 113-प्रा0पाठशाला पहाडी | | |
| | | 114-प्रा0पाठशाला टोडापहाड | | |
| 4 | 20-सेवडा | श्री नवीन भारद्वाज तहसीलदार इन्दरगढ 7568898747 | 115-प्रा0पाठशाला कजौली | थरेंट, इन्दरगढ |
| | | | 116-प्रा0मा0पाठशाला सेगुवा | |
| | | | 117-प्रा0मा0पाठशाला अति0कक्ष सेगुवा | |
| | | | 118-प्रा0पाठशाला बराबुजुर्ग | |
| | | | 119-पंचायत भवन चकबैना | |
| | | | 120-प्रा0पाठशाला पूर्वी भाग जोनियां | |
| | | | 121-प्रा0पाठशाला जोनियां | |
| | | | 122-प्रा0पाठशाला पिपरीआ | |
| | | | 123-प्रा0पाठशाला जसवतपुर | |
| | | | 124-प्रा0पाठशाला लहराकला | |
| | | | 125-प्रा0पाठशाला सिकरी | |
| | | | 126-प्रा0पाठशाला सिकरी | |
| | | | 127-प्रा0पाठशाला ईटारोरा | |
| | | | 128-प्रा0पाठशाला अति0कक्ष बडेहरी | |
| | | | 129-प्रा0पाठशाला पहाडीरावत | |
| | | | 130-पंचायत भवन दोहर | |
| | | | 131-प्रा0पाठशाला आनंदपुर | |
| | | | 132-प्रा0पाठशाला डेलुआ | |
| | | | 133-प्रा0पाठशाला रुरुआजीवन | |
| | | | 134-प्रा0पाठशाला पडरी | |
| | | | 135-कन्या पाठशाला पडरी | |
| | | | 136-प्रा0मा0वि0मोहनजाड | |
| | | | 137-प्रा0पाठशाला रौनी | |
| | | | 138-नवीन अतिरिक्त प्रा0पाठशाला कुठोदा | |
| | | | 139-क0मा0वि0 अंदरबस्ती इन्दरगढ | |
| | | | 140-नवीन प्रा0वि0इन्दरगढ | |
| | | | 141-नवीन प्रा0वि0 पश्चमी भाग इन्दरगढ | |
| | | | 142-क0मा0वि0 अंदर बस्ती इन्दरगढ भाग-1 | |
| | | | 143-क0मा0वि0 अंदर बस्ती इन्दरगढ भाग-2 | |
| | | | 144-हरिजन छात्रावास राजा का बाग इन्दरगढ | |

| विधानसभा क्षेत्र | सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं मोबाईल | मतदान केंद्रों के कमाक व नाम | पुलिस थाना / चौकी | |
|------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | 145-बालिका छात्रावास सर्व शिक्षा अभियान इन्दरगढ़ 146-कन्या प्रा0पठशाला का बाग इन्दरगढ़ 147-कन्या प्रा0पठशाला का बाग इन्दरगढ़ दक्षिणी भाग अति0कक्ष 148-प्रा0पाठशाला मणीपुरा इन्दरगढ़ 149-प्रा0पाठशाला मणीपुरा इन्दरगढ़ अति0कक्ष 150-प्रा0पाठशाला मणीपुरा इन्दरगढ़ 151-प्रा0विद्यालय तालपुरा इन्दरगढ़ 152-प्रा0पाठशाला अति0कक्ष वार्ड 13 इन्दरगढ़ 153-प्रा0पाठशाला विश्राम गृह के पास इन्दरगढ़ भाग-1 154-प्रा0पाठशाला विश्राम गृह के पास इन्दरगढ़ भाग-2 155-नवीन इं0कॉलेज उत्तरी भाग इन्दरगढ़ कक्ष क. 6 156-नवीन इं0कॉलेज उत्तरी भाग इन्दरगढ़ कक्ष क. 2 157-प्रा0पाठशाला नेतुआपुरा इन्दरगढ़ | | |
| 5 | 20-सेवदा | श्री मोतीलाल जाटव नायाब तहसीलदार वृत्त-कुदारी 0461073879 | 158-प्रा0पाठशाला बरगुवा 159-प्रा0पाठशाला श्यामपहाडी 160-प्रा0पाठशाला कुलैथ 161-पंचायत भवन कुलैथ 162-प्रा पाठशाला, खैरोलाघाट 163-प्राथमिक पाठशाला, जसवंतपुरा 164-प्रा0 पाठशाला, पंचोखरा 165-प्रा0पाठशाला, पंचोखरा 166-पंचायत भवन, बिलासपुर 167-प्राथमिक पाठशाला, अण्डौरा 168-प्रा0 पाठशाला लोच पर्वी भाग 169-प्रा0 पाठशाला लोच दक्षिणी भाग 170-प्रा0पाठशाला खडौआ उत्तरी भाग 171-प्रा0पाठशाला खडौआ दक्षिणी भाग 172-प्रा पाठशाला हसनपुरा 173-प्रा पाठशाला चिमघन 174-प्रा पाठशाला तिरारु 175-प्रा पाठशाला रसगढा 176-प्रा पाठशाला बरजोरपुरा 177-प्रा पाठशाला पिपरा 178-प्रा पाठशाला उचाड 179-प्रा पाठशाला उचाड 180-प्रा पाठशाला नवीन तिलैथा 181-प्रा पाठशाला भरसुला 182-प्रा पाठशाला सुनारी 183-प्रा पाठशाला सुनारी 184-प्रा पाठशाला खजुरी 185-प्रा पाठशाला भदोना 186-प्रा पाठशाला खिरका 187-प्रा पाठशाला स्यावरी 188-प्रा पाठशाला सिलोरी भाग-1 189-प्रा पाठशाला सिलोरी भाग-2 190-प्रा पाठशाला जझारपुर भाग-1 191-प्रा पाठशाला जझारपुर भाग-2 | इन्दरगढ़, लोच, गौदन,धीरपुरा |
| 6 | 20-सेवदा | श्री संजय भट्ट नायब तहसीलदार वृत्त-धीरपुरा 9406778815 | 192-प्रा पाठशाला गोहना 193-प्रा पाठशाला धीरपुरा 194-प्रा पाठशाला सुन्दरपुरा 195-प्रा पाठशाला इकोला 196-प्रा पाठशाला थैली | |

| विधानसभा क्षेत्र | सेक्टर/मजिस्ट्रेट का नाम एवं मोबाइल | मतदान केन्द्रों के क्रमांक व नाम | पुलिस थाना/चौकी |
|------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 197-प्रा पाठशाला तिगरा 198-प्रा पाठशाला भरीली 199-शा.मा0विधालय भरीली 200-प्रा पाठशाला छेकरी 201-नवीन पंच भवन जिगिनिया 202-प्रा पा.का अति कक्ष भडोल 203-प्रा0 पाठशाला लक्ष्मणपुरा 204-प्रा पाठशाला दभैरा 205-प्रा वि सेवनी 206-ग्राम पंचायत भवन रमदेवा 207-माध्य पाठशालाररुआराय 208-ग्राम सचिवालय भवन छिकाऊ 209-प्रा पाठशाला देगवागजर 210-प्रा0 पा0 ऊचिया भाग-1 211-प्रा0 पा0 ऊचिया भाग-2 212-स्वराज भवन कटापुर 213-प्रा पाठशाला मुरवावा 214-प्रा पाठशाला रानीपुरा 215-प्रा पाठशाला लोधीपुरा 216-शा.प्रा. पाठ.शाला वागपुरा 217-शा0 प्रा0 पाठशाला पीपरी 218-प्रा पाठशाला जोरा 219-प्रा पाठशाला वागदेनफीरोज 220-प्रा पाठशाला वागदेन सिदधो | धीरपुरा, इन्दरगढ़,गौदन |
| 1 | 21-भाण्डेर श्रीमती मनीषा कोल तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भाण्डेर | 82-सुनारी, 83-खिरियागोपी, 84-छाछपुरा, 85-सोप्ता, 86-देवरा, 87-सिमथरा, 88-सिमथरा, 89-बरगोली, 90-मन्जौल, 91-तिघराकला, 92-खिरियारियासत, 93-केवलासी, 94-विछरेदा, 95-वागपुरा, 96-माधोपुरा, 97-पथरानारायण, 98-सिहपुरा, 100-अजीतपुरा, 101-बेरछ, 102-बेरछ, 103-बडैराहवेली, 104-बराना, 189-सलेतरा, 190-सलेतरा, 191-सैतौल, 199-शा0प्रा0वि0सिकंदरपुर भाण्डेर, 200-शा0मा0वि0क्र0-2, भाण्डेर | थाना भाण्डेर |

| क्र. | विधानसभा क्षेत्र | सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं मोबाइल | मतदान केन्द्रों के क्रमांक व नाम | पुलिस थाना / चौकी |
|------|------------------|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 201- पानी की टंकी भाण्डेर, 202- शा0मा0वि0क्र0-1 भाण्डेर, 203- शा0मा0वि0क्र0-1 अति. कक्ष भाण्डेर, शा0प्रा0वि0क्र0-1 अति. कक्ष भाण्डेर, नवीन कक्ष भाण्डेर, भाण्डेर, 204- शा0उ0उ0मा0वि0 संस्कृत विद्यालय भाण्डेर, 207- विकासखण्ड कार्या0 भाण्डेर, 208- कार्या0 महिला बाल विकास भाण्डेर, 209- शा0कन्या प्रा0वि0 संकटमोचन भाण्डेर, 210-211 शा0प्रा0वि0 संकटमोचन काजीपाठा भाण्डेर, 212- शा0कन्या प्रा0वि0 भाण्डेर, 213- शा0प्रा0वि0क्र-2 भाण्डेर, 214- शा0कन्या मा0वि0 अति. कक्ष भाण्डेर, 215- शा0कन्या मा0वि0 भाण्डेर, 216- शा0प्रा0वि0 बरकीसराय भाण्डेर, 217- शा0मा0वि बरकीसराय पूर्वी भाग, 218- शा0मा0वि बरकीसराय पश्चिमी भाग, पट्टीततारपुर, 219- पट्टीततारपुर, 220- पट्टीततारपुर, 221- नोबई, 222-223 सालीन ए, 224- भरोली, 225- इलखतपुर, 226- बगदा, 227-228 बिछौदना, 229- जादमपुर, 176- देवरा, 177- प्यावल, 182- धमना, 183-184-185 सरसई, 186- अस्टोट, 187- मुरिया, 188- भुरतरा, 192- कलरिया, 193- वेदा, 194-195 पिपरीआकला, 196- कन्हारियाराय, 197- खिरियासाहब, 198- बैधारी | |
| | | | 176- देवरा, 177- प्यावल, 182- धमना, 183-184-185 सरसई, 186- अस्टोट, 187- मुरिया, 188- भुरतरा, 192- कलरिया, 193- वेदा, 194-195 पिपरीआकला, 196- कन्हारियाराय, 197- खिरियासाहब, 198- बैधारी | थाना सरसई |
| 2 | 21-भाण्डेर | श्री. नीतेश सागव, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भाण्डेर (कुल मतदान केन्द्र 51.) | 7- महाडुआ, 8- जौरी, 9- गणेशपुरा, 10- बैसौरा, 11- गौदन, 12- उडी, 13- राखरा, 14- पुरादबीह, 15- पड़रीकला, 16-17-18 तालगाव, 19- धौड़, 20-21 सोहन, 22- चाहनी, | |

| क्र. | विधानसभा क्षेत्र | सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं मोबाइल | मतदान केन्द्रों के क्रमांक व नाम | पुलिस थाना / चौकी |
|------|------------------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 23-कुरगाव, 24-घनियामपुर, 25-सीजना, 26-गुवाहा, 27-खिरियाआलम, 28-विण्डवा, 29-सकतपुरा, 30-बिल्हेटी, 31-भेदपुरा, 32-टोरी, 33-रामनेर, 34-35-36-37 सालोन बी, 62-63 बरका, 64-घनपीपरी, 65-डिमरपुरा, 66-67 पण्डोरखर, 68-मैथानापहुँज, 69-सदका, 70-71 लहारखेरी, 72-खिरियाकाडीर, 73-घनोटी, 74-75-76-77 बड़ेरासोपान, 78-नटरा, 79-बीसलपुरा, 80-कुली, 81-नादिया | थाना-पण्डोरखर |
| 3 | 21-भाण्डेर | श्री गोविन्दसिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भाण्डेर (कुल मतदान केन्द्र 67) | 105-सुजेड़, 106-खिरिया खोदस, 107-गुहा, 108-कुन्हरा, 109-नदाई, 110-भोय, 112-कुरेडा, 113-रजौरा, 122-चिरौली, 123-सुकैटा, 124-बदसपुर, 125-बुहारा, 126-खिरिया घोघू, 128-भिटोरा, 129-मवई, 130-चरवरा, 131-कड़खडा, 132-बुबाहा, 133,134-दुरसडा, 135-दिसवार, 136,137-बसवाहा, 138-विजनपुरा, 139,140-कुसीली, 141-सासुती, 142-दरियापुर, 144-सडगारा, | थाना-दुरसडा |

| क. | विधानसभा क्षेत्र | सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं मोबाइल | मतदान केन्द्रों के क्रमांक व नाम | पुलिस थाना/चौकी |
|----|------------------|---|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 146-पैता, 146-बीकर, 147- इमिलिया, 148-ककरोआ, 153-धवारी, 143-गुलमड़, 149-स्यारी, 150,151-इकारा, 152-गोविंदगढ़, 154-पठरा, 155-ललउआ, 156,157-सेरसा, 158-घरावा, 160-गुजरी, 161-धिसलनी, 162,163-परासरी, 164,165,166,167,168,169- उनाव, 170-भदेवरा, 171-आसेर, 172,173,174-कामद, 175-रिछार, 178-सिमिरिया, 179-कुमरिया, 180,181-तरगुवा, 118-लैतरा, 127-राधापुर, 159-तगा, | धाना-उनाव |
| | | | 38-स्योरा, 39-करा, 40-नौगुवा, 41-गलउआ, 42-अहरोनी, 43-रिछोरा, 44-गलको, 45,46,47-उड़ीना, 48-कापीपुर, 49-कमलापुरी, 50,51,52- गौदन, 53-सोडा, 54-तैडोत, 55-खिरिया फेजुल्ला, 56-छान, 57-इमिलिया, 58-तैतना, 59-हसनपुर, 60,61-भिटारी, 99-सैभाहा, 111-मैथानापाली, 114-नयागाव, 115-अकोला, 116,117-सेमई, 119-कालीपुरा, | धाना-सिविल लाईन |
| 4 | 21-साण्डेर | श्री ए०के० गौतम, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट साण्डेर (कुल मतदान केन्द्र 39) | | धाना -गौदन |
| | | | | धाना-धीरपुरा |

| क्र | विधानसभा क्षेत्र | सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं मोबाइल | मतादान केन्द्रों के क्रमांक व नाम | पुलिस थाना/चौकी |
|-----|------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 120,121-सिधवारी | |
| | | | 1,2,3-सेथरी | थाना-थरेंट |
| | | | 4-आमुली | |
| | | | 5,6-पोरसा | थाना-भगुवापुरा |
| 1 | 22-दतिया | श्री अनिरुद्ध श्रीवास्तव नायब तहसीलदार | 1-कोटरा-प्रा0पाठशाला कोटरा 2-गोरा-प्रा0पाठशाला गोरा 3-पचोखरा-शा0मा0वि0पचोखरा 4-बडौनकला-मा0पाठशाला बडौनकला 5-शा0प्रा0पाठशाला बडौनकला अतिरिक्त कक्षा 6-प्रा0पाठशाला बडौनकला 7-प्रा0पाठशाला पश्चिमी भाग बडौनकला 45-बडेरा-गा0पाठशाला बडेरा 46-मलक पहाडी-प्रा0पाठशाला मलक पहाडी 47-वहरुका-प्रा0पाठशाला बहरुका 41-सीतापुर-मा0पाठशाला सीतापुर 42-प्रा0वि0अतिरिक्त कक्षा सीतापुर 43-उपराय-मा0पाठशाला उपराय 44-उपराय-कन्या पाठशाला उपराय 48-बानौली-प्रा0पाठशाला बानौली 49-डोंगरपुर-प्रा0पाठशाला डोंगरपुर 50-बरोह-प्रा0पाठशाला बरोह 53-गढी-प्रा0पाठशाला गढी | गोराघाट |
| 2 | 22-दतिया | श्रीमती करुणा दण्डीतिया नायब तहसीलदार | 25-सेवनी-प्रा0पाठशाला सेवनी 33-सिनावल-प्रा0पाठशाला सिनावल 34-महेवा-प्रा0पाठशाला महेवा 35-मुरेरा-मा0पाठशाला मुरेरा 36-मुरेरा-प्रा0पाठशाला मुरेरा 39-रिछारी-प्रा0पाठशाला रिछारी 40-रिछारी-प्रा0पाठशाला विजयपुर कलां 14-जौहार-प्रा0पाठशाला जौहार 15-कुरथरा-शा0 हाई स्कूल कुरथरा 17-हा0से0स्कूल का स्टाफ रूम बडौनीखुर्द 18-हा0से0स्कूल का स्टाफ रूम पूर्वी भाग बडौनीखुर्द 19-शा.उ.मा.वि.कक्षा क.7 बडौनी खुर्द 20-शा0 उ.मा.वि. कक्षा क्र.-'15 बडौनी खुर्द 21-शा.मा.वि.बालक बडौनीखुर्द 22-शा.मा.वि. बडौनीखुर्द एबीएल कक्षा 23-कन्या मा0 शाला बडौनीखुर्द 24-कन्या मा0 शाला अतिरिक्त कक्षा बडौनीखुर्द 37-रामसागर-प्रा0पाठशाला रामसागर 38-गोविंदपुर-प्रा0पाठशाला गोविंदपुर 8-डगराकुआ-मा0वि0डगराकुआ 9-हिचौतिया-शा0 प्रा.वि. हिचौतिया 28-मिटी-प्रा0पाठशाला मिटी 29-रावरी-प्रा0पाठशाला रावरी 30-वमरोल-प्रा0पाठशाला वमरोल 31-बरगाय-मा0पाठशाला वरगाय 32-बरगाय-मा0वि0 भवन वरगाय | बडौनी, सिनावल बडौनी, सिनावल बडौनी, सिनावल बडौनी, जिगना |

| क्र. | विधानसभा क्षेत्र | सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम एवं मोबाईल | मतदान केन्द्रों के क्रमांक व नाम | पुलिस थाना/ चौकी |
|------|------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 83- कृषि उपज मण्डी (उ0भाग) 85- कृषि उपज मण्डी कार्यालय के बगल में दक्षिणी कक्ष 87- कृषि उपज मण्डी, कार्यालय दतिया 101- प्रा0पाठशाला (उत्तरी भाग)रिसाला मंदिर,दतिया 102- प्रा0पाठशाला (दक्षिणी भाग)रिसाला 103- प्रा0पाठशाला रिसाला मंदिर, दक्षिणी भाग में दतिया 98-रेड कॉस भवन हॉली कॉस स्कूल के पास 104-मा0वि0क-5 मुडियन का कुआ,दतिया 105- मा0वि0क-5 मुडियन का कुआ दक्षिणी भाग दतिया 106-रेंज आफिस दतिया का रेस्ट हाउस कक्ष क्रमांक1 107-रेंज आफिस दतिया का रेस्ट हाउस कक्ष क्रमांक 2 110-नापतौल निरीक्षक कार्यालय पूर्वी भाग 111-नापतौल निरीक्षक कार्यालय पश्चिमी भाग 112-अग्रवाल धर्मशाला कक्ष क्रमांक 1 तिगैलिया के पास, 113-अग्रवाल धर्मशाला तिगैलिया के पास का हॉल, | सिविल लाईन/ कोतवाली दतिया |
| 7 | | श्री भरत कुमार तहसीलदार दतिया | 116-महिला चिकित्सालय दतिया का पूर्व कार्यालय, 117- महिला चिकित्सालय दतिया का क्लास रूम दतिया 118-उ0मा0वि0क-1(पूर्वी भाग कक्ष क्रमांक 5 दतिया 119- उ0मा0वि0क-1कक्ष क्रमांक 2 दतिया 120- उ0मा0वि0क-1(पश्चिमी भाग कक्ष क्रमांक 1 एवं2)दतिया 121-लोक निर्माण विभाग कार्यालय दतिया (पूर्वी भाग) 122-लोक निर्माण विभाग कार्यालय(पश्चिमी भाग) 124-लोक निर्माण विभाग, कार्यालय स्टोर कक्ष दतिया 125-प्राथमिक शाला भैरव मंदिर चूनगर फाटक बाहर दतिया 126-मा.वि. हरिजन बस्ती चूनगर फाटक बाहर दतिया 108-शा.प्रा.वि. मॉडल बेसिक तलेया मोहल्लाअतिरिक्त कक्ष 109-शा.प्रा.वि. क्रमांक-6 तलेया मोहल्ला कक्ष क्रमांक-2 114-प्राथमिक शाला बिहारी जी मंदिर, उत्तरी भाग दतिया 115- प्राथमिक शाला बिहारी जी मंदिर,दक्षिणी भाग दतिया 123-कन्या मा.वि. क-2 दतिया 133-शा0प्रा0शा0 होलीपुरा दतिया 134-शा0नवीन हरि0बस्ती वार्ड क्रमांक 2 135-मा0शा0होलीपुरा दतिया 136-मा.वि.होलीपुरा ऑफिस कक्ष 137-गुगोरिया धर्मशाला बिहारी जी के मंदिर के सामने काहाल दतिया 138-गुगोरिया धर्मशाला पूर्वी भाग दतिया, | कोतवाली दतिया |
| 8 | 22-दतिया | 22-पुरानी कोतवाली | 139-नवीन प्रा0शा0भवन पूर्वी भाग भदोरिया की खिडकी वाहर 140-नवीन प्रा0शा0भवन पश्चिमी भाग भदोरिया की खिडकी वाहर, 141-प्रा0शा0 अतिरिक्त कक्ष कुईयापुरा, 142-प्रा0शा0 अतिरिक्त कक्ष कुईयापुरा, 143-शा0 नवीन वि0 गाडीखाना,उत्तरी भाग 144-शा0 नवीन वि0 गाडीखाना,दक्षिणी भाग 145-पुराना पुलिस कंट्रोल रूम का हाल किला चौकदतिया 146-पुरानी कोतवाली किला चौक दतिया 147-गाडीखाना नवीन भवन दतिया 150-बग्गी खाना दतिया 151-बग्गी खाना दतिया | कोतवाली दतिया |

| क्र. | विधानसभा क्षेत्र | सेक्टर गजिस्ट्रीट का नाम एवं मोबाईल | भूतदान केन्द्रों के कर्षाक व नाम | पुलिस थाना / चौकी |
|------|------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 89-किसान विश्राम ग्रह मंडी प्रांगण,पूर्वी भाग दतिया 90-मिट्टी परिक्षण केंद्र मण्डी प्रांगण दतिया 92-किसान विश्राम ग्रह मंडी प्रांगण पश्चिमी भाग 93-कृषक विश्राम ग्रह मण्डी प्रांगण पश्चिमी भाग.1 दतिया 94-तुलावटी हम्माल विश्राम ग्रह बाला कक्ष पूर्वी भाग 154-एम०एल०वी०क०उ०मा०वि०दतिया, 155-एम०एल०वी०क०उ०मा०वि० का पूर्वी भाग दतिया, 156-माकेटिंग सोसाइटी दतिया 157-माकेटिंग सोसाइटी पूर्वी भाग दतिया, 158-कन्या मा०वि०हाथीखाना दतिया, 159-कन्या मा०वि०हाथीखाना विज्ञान कक्ष दतिया, | कोतवाली दतिया |
| 8 | | श्री ओमप्रकाश तिवारी नायब तहसीलदार | 64-खेरी- प्रा०पाठशाला खेरी 65-राजापुर-प्रा०पाठशाला राजापुर 66-लरायटा- प्रा०पाठशाला लरायटा 67-प्रा०पाठशाला अतिरिक्त कक्षा लरायटा 68-फुलरा- प्रा०पाठशाला फुलरा 69-डगरई- प्रा०पाठशाला डगरई 196-चितुवा- प्रा०पाठशाला चितुवा 197-रावतपुरा- प्रा०पाठशाला रावतपुरा 198-गधारी- प्रा०पाठशाला गधारी 199-लमायचा-प्रा०पाठशाला लमायचा 200-ग्राम पंचायत भवन चिरुला 201-प्रा०वि० चिरुला 202-करारीखुर्द-प्रा.शाला भवन करारीखुर्द 160-चकरामसागर-प्रा०पाठशाला चकरामसागर 161-चौपरा- प्रा०पाठशाला चौपरा 162-निचरोली-प्रा०पाठशाला निचरोली 163-निचरोली-पंचायत भवन निचरोली 192-कंगलीपहाडी-प्रा०पाठशाला कालीपहाडी 193-दुर्गापुर- प्रा०पाठशाला दुर्गापुर 194-अगोरा- प्रा०पाठशाला अगोरा 195-बाजनी- प्रा०पाठशाला बाजनी 203-पिसनारी- प्रा०शाला भवन पिसनारी 204-भागौर-मा०शा०भवन भागौर | चिरुला, सिविल लाईन |
| | | | 160-चकरामसागर-प्रा०पाठशाला चकरामसागर 161-चौपरा- प्रा०पाठशाला चौपरा 162-निचरोली-प्रा०पाठशाला निचरोली 163-निचरोली-पंचायत भवन निचरोली 192-कंगलीपहाडी-प्रा०पाठशाला कालीपहाडी 193-दुर्गापुर- प्रा०पाठशाला दुर्गापुर 194-अगोरा- प्रा०पाठशाला अगोरा 195-बाजनी- प्रा०पाठशाला बाजनी 203-पिसनारी- प्रा०शाला भवन पिसनारी 204-भागौर-मा०शा०भवन भागौर | चिरुला जिनना |
| 9 | 22-दतिया | श्री वीपक यादव नायब तहसीलदार | 233-जैतपुर-सिद्धेश्वर मंदिर के पास जैतपुर 234-वस्थुवा-शा० हाई स्कूल 235-वस्थुवा-शा०भाव वि० पाठशाला वस्थुवा 236-साकुली- प्रा०पाठशाला साकुली 237-नयाखेडा-शा०मा०वि०लुडिया कक्ष क्र.1 नयाखेडा 238- प्रा०पाठशाला नयाखेडा 239-उर्दना- प्रा०पाठशाला उर्दना 240-कधारी- प्रा०पाठशाला कधारी 241-मुडरा-प्रा०पाठशाला अतिरिक्त कक्ष 242-पाराखेडा- प्रा०पाठशाला पाराखेडा 219-लखनपुर-प्रा०पाठशाला लखनपुर 220-उ०मा०वि० भवन कक्ष क्र.1 बसई, 221-पंचायत भवन बसई 222-उ०मा०वि०भवन बसई 223-उ०मा०वि०भवन कक्ष क्र.2 बसई 224-शा०प्रा०वि० भवन बसई 225-प्रा०पाठशाला हीरपुर, | बसई |
| | | | 219-लखनपुर-प्रा०पाठशाला लखनपुर 220-उ०मा०वि० भवन कक्ष क्र.1 बसई, 221-पंचायत भवन बसई 222-उ०मा०वि०भवन बसई 223-उ०मा०वि०भवन कक्ष क्र.2 बसई 224-शा०प्रा०वि० भवन बसई 225-प्रा०पाठशाला हीरपुर, | बसई |

| विधानसभा क्षेत्र | सेक्टर मजिस्ट्रेट का नंबर एवं सीमाईल | मजिस्ट्रेट के नाम व नाम | पुलिस थाना/चौकी |
|------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 226- प्रा०पाठशाला मानिकपुर 227- प्रा०पाठशाला पकड़ारी 228- प्रा०पाठशाला जतनपुर 229- प्रा०पाठशाला ठकुरपुरा 230- प्रा०पाठशाला हिम्मतपुर 231- प्रा०पाठशाला सतलौन 232- प्रा०कन्या वि० सतलौन | बसई |
| रिजर्व कार्यपालिक मजिस्ट्रेट | | | |
| | कृ. साहिनी साहू नायब तहसीलदार | | |

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सागर, मध्यप्रदेश

क्रमांक-716-निर्वाचन-चु0पर्य0-2019

सागर, दिनांक 05 अप्रैल 2019

लोकसभा निर्वाचन 2019

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बावत प्रस्ताव

जिले का नाम : सागर

| सं.क्र. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा/ संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है |
|---------|------------------------|-------------------|---|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री प्रवीण शर्मा | उपसंचालक | ग0प्र0 राज्य कृषि बोर्ड विपणन बोर्ड आंचलिक सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 2 | श्री साहित्य तिवारी | सहायक यंत्री | मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 3 | श्री अंकित रावत | सहायक संचालक कृषि | संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 4 | श्री एम0के0 प्रजापति | सहायक संचालक कृषि | संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 5 | श्री आलोक कुमार वैद्य | कार्यपालन यंत्री | लाईट मशीनरी एवं वि./या. सभाग सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 6 | श्री पुष्पेन्द्र सिंह | परियोजना प्रबंधक | बीना पी0एम0यू0 जल संसाधन विभाग सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 7 | डॉ0 राज बहादुर अनुरागी | सहायक प्राध्यापक | डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 8 | डॉ0 गुलाब चंद गौतम | सहायक प्राध्यापक | डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 9 | डॉ0 अमित जुगनू विश्वास | सहायक प्राध्यापक | डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 10 | डॉ0 श्री भगवत | सहायक प्राध्यापक | डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 11 | डॉ0 नीरज उपाध्याय | सहायक प्राध्यापक | डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 12 | श्री गिरीश कुमार सिंह | सहायक प्राध्यापक | डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 13 | श्री धर्मेन्द्र कुमार | सहायक प्राध्यापक | डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 14 | श्री हिमांशु कुमार | सहायक प्राध्यापक | डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |

| स.क्र. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा/ संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है |
|--------|---------------------------|---|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | श्री महेश कुमार यादव | सहायक प्राध्यापक | डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 16 | श्री धर्मेन्द्र जैन | सहायक प्राध्यापक | डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 17 | डॉ० जय सिंह | सहायक प्राध्यापक | डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 18 | श्री राज कुमार कोरी | सहायक प्राध्यापक | डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 19 | श्री दिनेश कुमार जैन | उपयंत्री | जनपद पंचायत शाहगढ़ | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 20 | श्रीराम स्वर्णकार | उपयंत्री | जनपद पंचायत शाहगढ़ | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 21 | डॉ० देवेन्द्र कुमार पयासी | वैज्ञानिक पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी परियोजना | क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 22 | श्री वेद प्रकाश तिवारी | अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी | जनपद पंचायत राहतगढ़ | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 23 | श्री एस०एम० त्रिपाठी | उपयंत्री | जनपद पंचायत बीना | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 24 | श्री आई०पी० चौबे | सहायक प्रबंधक | एम.पी.आर.आर.डी.ए. पी.आई.यू.-1 सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 25 | श्री सम्राट साहू | उपयंत्री | जनपद पंचायत जैसीनगर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 26 | श्री पंकज श्रीवास्तव | प्रशिक्षण अधिकारी | आई.टी.आई. बीना | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 27 | श्री भरत सिंह | उपयंत्री | जनपद पंचायत बीना | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 28 | श्री भूपेन्द्र सिंह दांगी | उपयंत्री | जनपद पंचायत खुरई | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 29 | श्री दीपक कुमार अहिरवार | उपयंत्री | जनपद पंचायत मालथौन | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 30 | श्री सी.एस. चडार | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग 2 सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 31 | श्री पी.के. दास | उपयंत्री | जनपद शिक्षा केन्द्र केसली | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 32 | श्री राकेश सिंह बघेल | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग 2 सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 33 | श्री विवेक केशरवानी | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग 2 सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 34 | श्री मनोहर लाल अहिरवार | उपयंत्री | जनपद शिक्षा केन्द्र शाहगढ़ | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 35 | श्री रूपलाल वर्मा | उपयंत्री | बी.आर.सी. देवरी | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 36 | श्री सुमित सिंघई | उपयंत्री | जनपद शिक्षा केन्द्र रहली | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 37 | श्री छतरपाल सिंह अनुरागी | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग 2 सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |

| स.क्र. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा/ संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है |
|--------|-----------------------|----------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | श्री कमलेश डेहरिया | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग 2 सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 39 | श्री लखनलाल जावरे | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग 2 सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 40 | श्री राकेश पाण्डेय | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग 2 सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 41 | श्री बसंत तिवारी | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग 2 सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 42 | श्री प्रवीण सराफ | उपयंत्री | जनपद पंचायत सागर | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |
| 43 | श्री गजेन्द्र रोहितास | उपयंत्री | नगर परिषद बण्डा | कार्यपालिक | संपूर्ण जिले के लिए |

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मण्डला, मध्यप्रदेश

क्रमांक-निर्वाचन-वि.का.दण्डा.-2019-1266

मण्डला, दिनांक 05 अप्रैल 2019

लोक सभा निर्वाचन 2019

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

जिले का नाम :- मण्डला

| स.क्र. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा / संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री हीरालाल उइके | राजस्व निरीक्षक | कार्यालय तहसीलदार बिछिया | तृतीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 2 | श्री सुरेश मर्सकोले | राजस्व निरीक्षक | कार्यालय तहसीलदार बिछिया | तृतीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 3 | श्री चेताराम पन्धा | राजस्व निरीक्षक | कार्यालय तहसीलदार मण्डला | तृतीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 4 | श्री तारापत पटेल | राजस्व निरीक्षक | कार्यालय तहसीलदार नैनपुर | तृतीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिए |